

January 26, 2025

|   |   |
|---|---|
| <b>The Secretary,<br/>BSE Limited<br/>Phiroze Jeejeebhoy Towers,<br/>Dalal Street, Mumbai-400 001</b> | <b>Asst. Vice President,<br/>The National Stock Exchange of India Limited<br/>“Exchange Plaza”, Bandra Kurla Complex,<br/>Bandra (East), Mumbai-400 051</b> |
| <b>Scrip Code: 532529</b>   | <b>Scrip Symbol: NDTV</b>   |

**Sub: Submission of Newspaper Publication of Un-audited Financial Results for the quarter and nine-months ended December 31, 2024**

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to the provisions of Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith, copies of the newspaper publication for Statement of Standalone and Consolidated Un-audited Financial Results of the Company, for the quarter and nine-months ended December 31, 2024, published on January 26, 2025, in the following newspapers:

- Financial Express;
- Jansatta.

You are requested to take the same on record.

Thanking you,

Yours sincerely,

**For New Delhi Television Limited**

---

**Parinita Bhutani Duggal**  
**Company Secretary and Compliance Officer**

**Encl.: As above**

Q3 SCORECARD

# Yes Bank profit soars nearly 3x to ₹612 cr

• Jump helped by fall in provisions for bad loans

PRESS TRUST OF INDIA  
New Delhi, January 25

**YES BANK ON** Saturday reported nearly threefold jump in net profit to ₹612 crore for the third quarter ended December 2024 helped by a fall in provisions for bad loans.

The private sector bank had earned a net profit of ₹231 crore in the same quarter of previous financial year.

Total income increased to ₹9,341 crore during the third quarter of the ongoing fiscal from ₹8,179 crore a year ago, Yes Bank said in a regulatory filing.

Interest income increased to ₹7,829 crore from ₹6,984 crore. Net interest income grew 10% to ₹2,224 crore as against ₹2,017 crore in the third quarter last fiscal year.



REPORT CARD

■ Profit for Q3 FY24 stands at **₹231cr**

■ Net NPAs came down to **0.5%**

■ Income increased to **₹9,341 cr**

■ Net interest income grew **10% to ₹2,224 cr**

Net interest margin (NIM) of the bank remained flat at 2.4%. Operating profit rose to ₹1,079 crore

from ₹864 crore.

On the asset quality front, the bank's gross non-performing assets ratio improved to 1.6% against 2% a year ago. Similarly, net NPAs, or bad loans, came down to 0.5% from 0.9% at the end of the third quarter last fiscal year.

As a result, overall provisions, excluding tax halved to ₹259 crore from ₹555 crore in the same quarter a year ago.

Provision coverage ratio of the bank stood at 71.2% at the end of December quarter.

Average quarterly liquidity coverage ratio (LCR) on consolidated basis during the quarter remained healthy at 133.2%.

# NTPC sees marginal dip in net profit to ₹5,169 cr

FE BUREAU  
New Delhi, January 25

**STATE-OWNED POWER UTILITY** NTPC on Saturday reported a marginal 1% decline in its consolidated net profit for the third quarter of FY25 to ₹5,169.69 crore, compared to ₹5,208.87 crore in the same quarter last fiscal. Sequentially, the net profit decreased by 4%.

The company's revenue from operations for the quarter stood at ₹45,052.82 crore, marking a 5% increase from ₹42,820.38 crore in Q3FY24. NTPC's Board of Directors has approved a second interim dividend for FY25 at 25% of the paid-up share capital, amounting to ₹2.50 per equity share with a face value of ₹10 each.

Meanwhile, NTPC Green Energy (NGEL), an umbrella company for the green business initiatives of NTPC, reported 18% rise in consolidated net profit at ₹65.61 crore for December quarter FY25.

(With inputs from PTI)

## New Delhi Television Limited

CIN: L92111DL1988PLC033099

Regd. Off.: W-17, 2nd Floor, Greater Kailash - I,

New Delhi-110048

Phone: (91-11) 4157 7777, 2644 6666 Fax: 2923 1740

E-mail: corporate@ndtv.com; Website: www.ndtv.com



### Statement of Standalone and Consolidated unaudited financial results for the Quarter and Nine Months Ended 31 December 2024

(Rs. in Lakhs except per share data)

| Particulars   | Standalone                  |  |  | Consolidated                |  |  |
|---|-----------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|
|   | 3 months ended (31/12/2024) | Year to date figures for current period ended (31/12/2024) | Corresponding 3 months ended (31/12/2023) in the previous year | 3 months ended (31/12/2024) | Year to date figures for current period ended (31/12/2024) | Corresponding 3 months ended (31/12/2023) in the previous year |
|   | (Unaudited)                 | (Unaudited)  | (Unaudited)  | (Unaudited)                 | (Unaudited)  | (Unaudited)  |
| Total income from operations (net)  | 7,230                       | 18,077   | 6,297  | 13,274                      | 33,798   | 9,795  |
| Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary items)      | (5,501)                     | (14,751)   | (618)  | (5,410)                     | (15,275)   | (937)  |
| Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and extraordinary items) | (5,501)                     | (14,751)   | (618)  | (5,410)                     | (15,275)   | (937)  |
| Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and extraordinary items)  | (5,501)                     | (14,751)   | (618)  | (5,569)                     | (15,521)   | (955)  |
| Total Comprehensive Income for the period   | (5,549)                     | (14,893)   | (619)  | (5,628)                     | (15,695)   | (953)  |
| Equity share capital  | 2,579                       | 2,579  | 2,579  | 2,579                       | 2,579  | 2,579  |
| Other equity  | -                           | -  | -  | -                           | -  | -  |
| Earning Per Share (of Rs. 4/- each) (for continuing and discontinuing operations)       |                             |  |  |                             |  |  |
| Basic:  | (8.53)                      | (22.88)  | (0.96)   | (8.64)                      | (24.07)  | (1.48)   |
| Diluted:  | (8.53)                      | (22.88)  | (0.96)   | (8.64)                      | (24.07)  | (1.48)   |

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the Stock Exchange website ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)), and on the Company's website, [www.ndtv.com](http://www.ndtv.com). The same can be accessed by scanning the QR code provided below:



Place: Noida  
Date: 25 January 2025

On behalf of Board of Directors  
For New Delhi Television Limited  
Sanjay Puggalia  
Whole-time Director  
DIN: 08360398

# IDFC First Bank records 53% fall in net profit

ANUPREKSHA JAIN  
Mumbai, January 25

**IDFC FIRST BANK** on Saturday reported a 53% year-on-year (y-o-y) decline in the net profit to ₹339.4 crore for the quarter ended December 2024. The decrease was attributed to a sharp rise in provisions and contingencies during the period.

Provisions for Q3FY25 stood at ₹1,338 crore owing to the higher slippages in the micro-finance book. Excluding micro-finance, the provisions were stable.

The bank has not utilised any micro-finance provision buffers in Q3FY25 during the quarter. The management said it was tracking the micro-finance loan book closely considering the industry situation. The gross slippages for the quarter rose to ₹2,192 crore from ₹2,031 crore in Q3 FY24, much of it in the micro-finance portfolio.

The bank's asset quality for the quarter was stable with gross non-performing assets (NPAs) at

REPORT CARD

■ Fall in profit was due to sharp rise in provisions, contingencies during Q3

■ Provisions stood at **₹1,338 cr** due slippages in micro-finance book

■ NPAs came at **1.94%** from **2.04%** a year ago

■ Net interest margin came in at **6.04%**

V VAIDYANATHAN, MD & CEO, IDFC FIRST BANK

Excluding micro-finance book, gross and net NPAs are lower at 1.81% and 0.49%, respectively



1.94%, down from 2.04% in the year-ago period. The net NPAs came in at 0.52%, from 0.68% in Q3FY24.

"Excluding the micro-finance loan book, the gross and net NPAs are even lower 1.81% and 0.49% respectively," V Vaidyanathan, managing director and CEO, IDFC First Bank, said in the investor presentation. The credit issues in the micro-finance segment are transitory and likely to be resolved within a few quarters, the management said.

The bank's net interest margin (NIM) came in at 6.04% for the quarter under review compared to 6.18% in Q2FY25. The contraction in the margin was largely due to a decline in the micro-finance business and an increase in the composition of the wholesale banking business.


The lender's net interest income (NII) increased 14.4% y-o-y to ₹4,902 crore in Q3FY25.

The bank's loan and advances increased by 22% y-o-y to ₹2.31 lakh crore as of December 31.



Soch kar  
Samajh kar  
Invest kar

## Your awareness is your biggest investment.




# Avoid unregulated trading apps & social media groups guaranteeing returns

**Dabba trading** is illegal and run by unregistered entities. They often lure you to create Institutional account for high returns. Always verify the broker's registration on [sebi.gov.in](http://sebi.gov.in) and transfer funds only to their registered client bank account.

Guaranteeing returns in securities market is prohibited by law. Investment in such schemes are not eligible for compensation from the Exchange. You may report such practices to us on [Feedbk\\_inv@nse.co.in](mailto:Feedbk_inv@nse.co.in) or call us on 1800 266 0050

Visit [www.nseindia.com/invest/be-a-smart-investor](http://www.nseindia.com/invest/be-a-smart-investor) or Scan the QR code for more details.

in x f @nseindia



### EXTRACT OF STATEMENT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2024

(₹ in lakh)

| S. No. | Particulars   | Consolidated                        |                                     |  |  |                                  |
|--------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|
|        |   | For the Quarter Ended on 31-12-2024 | For the Quarter Ended on 31-12-2023 | For the Nine Month Ended on 31-12-2024 | For the Nine Month Ended on 31-12-2023 | For the Year Ended on 31-03-2024 |
|        |   | Unaudited                           | Unaudited                           | Unaudited                              | Unaudited                              | Audited                          |
| 1      | Total income from Operations  | 16,302                              | 16,228                              | 47,151                                 | 46,613                                 | 67,446                           |
| 2      | Net Profit for the period (before Tax and Exceptional items)  | 138                                 | (456)                               | 22                                     | (539)                                  | 113                              |
| 3      | Net Profit for the period (before Tax after Exceptional Items)  | 138                                 | (456)                               | 22                                     | (539)                                  | 113                              |
| 4      | Net Profit for the period (after Tax after Exceptional items)   | 97                                  | (336)                               | 9                                      | (400)                                  | 91                               |
| 5      | Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the Period after Tax and Other Comprehensive Income after Tax) | 122                                 | (331)                               | 86                                     | (387)                                  | 193                              |
| 6      | Paid up Equity Share Capital (Face value of ₹ 10/- each)  | 1,465                               | 1,457                               | 1,465                                  | 1,457                                  | 1,459                            |
| 7      | Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year                             | -                                   | -                                   | -                                      | -                                      | 29,844                           |
| 8      | Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (For continuing and discontinued operations) (Not Annualised)                               |                                     |                                     |  |  |                                  |
|        | a) Basic (amount in ₹)  | 0.66                                | (2.31)                              | 0.06                                   | (2.76)                                 | 0.63                             |
|        | b) Diluted (amount in ₹)  | 0.66                                | (2.31)                              | 0.06                                   | (2.76)                                 | 0.62                             |

### EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2024

(₹ in lakh)

| S. No. | Particulars   | Standalone                          |                                     |  |  |                                  |
|--------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|
|        |   | For the Quarter Ended on 31-12-2024 | For the Quarter Ended on 31-12-2023 | For the Nine Month Ended on 31-12-2024 | For the Nine Month Ended on 31-12-2023 | For the Year Ended on 31-03-2024 |
|        |   | Unaudited                           | Unaudited                           | Unaudited                              | Unaudited                              | Audited                          |
| 1      | Total income from Operations  | 16,081                              | 16,228                              | 46,930                                 | 46,613                                 | 67,446                           |
| 2      | Net Profit for the period (before Tax and Exceptional items)  | 126                                 | (468)                               | 18                                     | (595)                                  | 28                               |
| 3      | Net Profit for the period (before Tax after Exceptional items)  | 126                                 | (468)                               | 18                                     | (595)                                  | 28                               |
| 4      | Net Profit for the period (after Tax after Exceptional items)   | 86                                  | (348)                               | 6                                      | (456)                                  | 6                                |
| 5      | Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the Period after Tax and Other Comprehensive Income after Tax) | 111                                 | (343)                               | 83                                     | (443)                                  | 108                              |
| 6      | Paid up Equity Share Capital (Face value of ₹ 10/- each)  | 1,465                               | 1,457                               | 1,465                                  | 1,457                                  | 1,459                            |
| 7      | Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year                             | -                                   | -                                   | -                                      | -                                      | 29,381                           |
| 8      | Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (For continuing and discontinued operations) (Not Annualised)                               |                                     |                                     |  |  |                                  |
|        | a) Basic (amount in ₹)  | 0.59                                | (2.40)                              | 0.04                                   | (3.14)                                 | 0.04                             |
|        | b) Diluted (amount in ₹)  | 0.58                                | (2.40)                              | 0.04                                   | (3.14)                                 | 0.04                             |

Notes:

- The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee and then approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 25th January, 2025. The financial results for the quarter and period ended December 31, 2024 have been limited reviewed by the Statutory Auditors of the Company.
- The above is an extract of the detailed format of quarterly/year to date/annual financial results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the quarterly/year to date/annual financial results is available on the stock exchange websites of BSE ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and NSE ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) and Company's website at <https://www.orientbell.com>.
- There is no change(s) in accounting policies which impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s).

Place : New Delhi  
Date : 25<sup>th</sup> January 2025

For and on behalf of the Board of Directors of Orient Bell Limited  
Madhur Daga  
Managing Director

## Orient Bell Limited

CIN: L14101UP1977PLC021546

Registered Office : 8, Industrial Area, Sikandrabad - 203205, Dist. Bulandshahr, U. P.

Corporate Office : Iris House, 16 Business Center, Mangal Raya, New Delhi-110 046

☎ +91-11-47119100 | ✉ investor@orientbell.com | 🌐 www.orientbell.com



